

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 20—सितम्बर 26, 2014 (भाद्रपद 29, 1936)

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 20—SEPTEMBER 26, 2014 (BHADRA 29, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 सितम्बर 2014

सं. डीपीपर्स-I2014/85/3/50/2014-पर्स-1—श्री डी.वी. त्रिपाठी ने अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर, दिनांक 30.06.2014 (अपराह्न) से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

हैदराबाद - 500 052] दिनांक 25 अगस्त 2014

संख्या-15011/13/2014-स्था—डॉ.(सुश्री) वी.वन्दना, ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (सी.एच.एस.-I सेक्शन), नई दिल्ली के ज्ञापन संख्या ए.12025/461/2014. सी.एच.एस.-I दिनांक 04 अगस्त, 2014 के अनुसरण, पे-बैंड-3 रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड पे- रु. 5,400/- + समय-समय पर स्वीकार्य प्रैक्टिसबन्दी भत्ते में दिनांक 14 अगस्त, 2014 को पूर्वाह्न में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर अगले आदेश जारी होने तक, उपर्युक्त ज्ञापन दिनांक 04 अगस्त, 2014 में दी गई निबंधन एवं शर्तों के आधार पर कार्यभार ग्रहण किया।

अरुणा एम. बहुगुणा
निदेशक

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली - 110003, दिनांक 11 अगस्त 2014

संख्या : ओ.दो-3674/2014-कार्मिक-डी.ए.-1—भारत सरकार ने श्री राज कुमार, भा0पु0से0 (यू0पी0 : 95) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में प्रतिनियुक्ति आधार पर रु0 37,400—67,000/- के वेतन बैंड (पी0बी0-4) तथा ग्रेड वेतन रु0 8,900/- में, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने पुलिस उप महानिरीक्षक, के0रि0पु0बल का कार्यभार दिनांक 11/08/2014 (पूर्वाह्न) को ग्रहण कर लिया है।

एम. सी. पँवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 13 अगस्त 2014

संख्या: डी.एक. 7/13-कार्मिक.डी0ए0आठ—एन0एस0जी0 मुख्यालय के पत्र संख्या 20016/01/2014.Estt-HQ NSG/1997 दिनांक 21/05/2014 के तहत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों, एन0एस0जी0, में टिम कमान्डर (GD) के पद पर 05 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर चयन होने के फलस्वरूप इनकी सेवाएँ इनके नामों के सामने दर्शाई गई तिथियों से एन0एस0जी0 मुख्यालय के निपटान (कपेचर्वेस) पर रहेंगी:—

क्रम सं०	ईरला	अधिकारी का नाम (सर्वश्री) एवं रैंक	बटा०	दिनांक
01	8382	अभिजित सिंह रातोड, सहायक कमान्डेन्ट	133 बटालियन	23/06/2014(अप०)
02	8416	अखिलेश कुमार, सहायक कमान्डेन्ट	85 बटालियन	27/06/2014(अप०)
03	7953	शैलेन्द्र कुमार, सहायक कमान्डेन्ट	204 कोबरा बटालियन	28/07/2014(अप०)

एम. सी. पँवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 27 अगस्त 2014

संख्या-ओ.दो.3982/2014-कार्मिक(वि०अ०)—राष्ट्रपति जी डॉ० रुपेश कुमार साहू को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600—39,100 + ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में चिकित्साधिकारी/सहायक कमान्डेन्ट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 23.08.2014(पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक अस्थायी तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. सी. पँवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

संख्या-ओ.दो.3981/2014-कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी डॉ० चन्दन कुमार को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में चिकित्साधिकारी/सहायक कमाण्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 13.08.2014(पूर्वाह्न)से, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. सी. पँवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 2 सितम्बर 2014

संख्या-ओ.दो.3983/2014-कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी डॉ० ढोक अमित अजय को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में चिकित्साधिकारी/सहायक कमाण्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 27.08.2014(पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. सी. पँवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

संख्या-ओ.दो.3984/2014-कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी डॉ० आशीष संदिल्या को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में चिकित्साधिकारी/सहायक कमाण्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 28.08.2014 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. सी. पँवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

संख्या : ओ.दो-3674/2014-कार्मिक-डी.ए.-1—भारत सरकार ने श्री राजेश प्रताप सिंह, भा०पु०से० (यू०पी० : 85) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में प्रतिनियुक्ति आधार पर रु० 37,400-67,000/- के वेतन बैंड (पी०बी०-4) तथा ग्रेड वेतन रु० 10,000/- में, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 30/06/2019 (अधिवर्षिता की तिथि) की अवधि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने पुलिस महानिरीक्षक, के०रि०पु०बल का कार्यभार दिनांक 02/09/2014 (पूर्वाह्न) को ग्रहण कर लिया है।

एम. सी. पँवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 3 सितम्बर 2014

सं : ओ.दो-5209/2014-कार्मिक (डीए० 3)—सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी नोटिस के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय कमान अधिकारी (इरला-5209), कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, रेन्ज मुख्यालय के०रि०पु०बल, ग्रेटर नोएडा ने दिनांक 01/09/2014 (पूर्वाह्न) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01/09/2014 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

एम. सी. पँवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2014

सं. प्रशा.-II/गजट नोटिफिकेशन/आर-12063/122/2014/डी-371—निम्नलिखित समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से अधिवार्षिकी पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं:-

सर्वश्री

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | गोविन्द प्रसाद गोयल
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | 31.08.2014 (अपराह्न) से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त |
|----|---|--|

2. श्री दिनेश कुमार गुप्ता 31.08.2014 (अपरान्ह) से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ह./— अपठनीय
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) का कार्यालय,
ओडिशा
भुवनेश्वर, दिनांक 3 सितम्बर 2014

सं. प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-VIII/ 1422—ज्ञापन सं. प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/
भाग-VIII/1399 दिनांक 28.08.2014 द्वारा सूचित कार्यालय आदेश 'ग' 638 दिनांक 28.08.2014 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक
लेखापरीक्षा अधिकारियों की पदोन्नीत होने पर उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तिथि से वेतन बैंड - 2 (₹ 9300 - ₹ 34800/-) एवं
सादृश्य ग्रेड वेतन ₹ 5400/- पर लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)	लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
01.	बिजय कुमार प्रहराज	28.08.2014 अपराह्न
02.	प्रकाश चन्द्र साबत	28.08.2014 अपराह्न
03.	चन्द्र किशोर अग्रवाल	01.09.2014 पूर्वाह्न
04.	बन्धु लकरा	01.09.2014 पूर्वाह्न

भगवान नायक
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

खान मंत्रालय

(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-16, दिनांक 3 सितम्बर 2014

सं. 5551/एसपी ए-19011(1-एसकेडी)/2012/19ए—महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने श्री संतोष कुमार
दास द्वारा व्यक्तिगत कारण से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूवैज्ञानिक पद से दी गई त्यागपत्र को स्वीकार कर लिए हैं
जो अपराह्न 11.07.2013 से प्रभावी है।

एच.एम. मिश्रा
उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)
कृते महानिदेशक

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 27 अगस्त 2014

सं.ए-19024/6/2013-प्रशा.-I—श्रीमती एस. सीतालक्ष्मी, वरिष्ठ रसायनज्ञ, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय
एगमार्क प्रयोगशाला, चेन्नई दिनांक 20.08.2014 को स्वैच्छिक रूप से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई।

एम. एल. सिक्का
अवर सचिव

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई - 400 085, दिनांक 12 अगस्त 2014

सं. पीडी/93/अधि/स्थापना/। &II /OPA/108412—निम्नलिखित केंद्र तालिका में कॉलम-2 पर दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा नामों के सामने कॉलम -3 पर दर्शाए गए पद, कॉलम -4 पर दर्शाई गई तारीखों को, कॉलम -5 पर दर्शाई गई घटना के आधार पर अधिकारियों द्वारा धारित पदों का कार्यभार त्याग किया गया है :-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	कार्यभार त्यागने का	पदत्याग करने की तारीख	घटना
1.	श्री एन जी बिजूर	प्रशासनिक अधिकारी-II	31/07/2014(अप)	अधिवर्षिता
2.	श्री व्ही आर बदडे	सुरक्षा अधिकारी	31/07/2014(अप)	अधिवर्षिता
3.	श्रीमती शोभना के नायर	वरिष्ठ निजी सचिव	31/07/2014(अप)	अधिवर्षिता

ह./— अपठनीय
नियंत्रक

सं. पीडी/93/अधि/स्थापना/। &II /OPA/108412—निम्नलिखित तालिका में कॉलम-2 पर दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा नामों के सामने कॉलम -3 पर दर्शाए गए पद, कॉलम -4 पद दर्शाई गई तारीखों को, कॉलम -5 पद दर्शाई गई घटना के आधार पर अधिकारियों द्वारा धारित पदों का कार्यभार त्याग किया गया है :-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	कार्यभार त्यागने का	पदत्याग करने की तारीख	घटना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री रविन्द्र सैनी	वै. अ/डी	09/07/2014(अप)	तकनीकी त्यागपत्र
2.	डॉ (श्रीमती) गीता राजप्पन	वै. अ/एफ	31/07/2014(अप)	अधिवर्षिता
3.	श्रीमती गीता वामन नाबर	वै. अ/डी	31/07/2014(अप)	अधिवर्षिता
4.	डॉ विनोद कुमार	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	31/07/2014(अप)	सेवा अवधि में चार वर्ष विस्तार के बाद सेवानिवृत्ति
5.	श्री मुदब्बिर एहतिशाम जुबैरी	वै. अ/एफ	31/07/2014(अप)	अधिवर्षिता
6.	श्री मनजीत सिंह	विशिष्ट वैज्ञानिक	31/07/2014(अप)	सेवा अवधि में चार वर्ष विस्तार के बाद सेवानिवृत्ति

7	श्री बालकृष्ण पांडुरंग पाटील	वै. अ/ई	31/07/2014(अप)	अधिवर्षिता
8	श्री एस एन पील्लई	वै. अ/एफ	31/07/2014(अप)	अधिवर्षिता
9	श्री हसनजी अब्दुलहुसैन गांगरडीवाला	वै. अ/ई	31/07/2014(अप)	अधिवर्षिता

ह./— अपठनीय
नियंत्रक

मुंबई 85, दिनांक 2 सितम्बर 2014

सं. पीडी/6(1)/2014-भर्ती-III/2014/10322—अध्यक्ष, पी. एवं सी. डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री दिनेश शशीकांत नलावडे, सहायक सुरक्षा अधिकारी (ए), निसेसंप्रति, मुंबई को दिनांक 18.08.2014 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक ₹ 9300—34800 के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन ₹ 4800/- में इस अनुसंधान केंद्र में सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700064, दिनांक 1 सितम्बर 2014

सं.वी.ई.सी.सी./ पदोन्नति (जुलाई)/2012/ 2468—राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी (डी) को इसी केन्द्र में वेतन बैंड 3 रु. 15600—39100 तथा ग्रेड वेतन रु. 7600/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (ई) के पद पर जुलाई 01, 2012, के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक स्थानापन्न रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन
1	श्री झीलम साधुखान	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	पी.बी.-3 रु. 15600—39100 +जी.पी. रु 6600/-

ए. बनर्जी
प्रशासनिक अधिकारी-III

दिनांक 2 सितम्बर 2014

सं.वी.ई.सी.सी./ पदोन्नति (जुलाई)/2013/2476—राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र में वेतन बैंड 3 रु. 15600—39100 तथा ग्रेड वेतन रु. 7600/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (ई) के पद पर जुलाई 01, 2013, के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक स्थानापन्न रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं :

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन
1	श्री सौरभ श्रीवास्तव	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	पी.बी.-3 रु. 15600—39100+जी.पी. रु 6600/-
2	श्री श्री सुभाषिष बसाक	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	पी.बी.-3 रु. 15600—39100+जी.पी. रु 6600/-
3	श्री सुभादीप राय	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	पी.बी.-3 रु. 15600—39100+जी.पी. रु 6600/-
4	श्री पृथ्विष त्रिवेदी	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	पी.बी.-3 रु. 15600—39100+जी.पी. रु 6600/-
5	श्री त्रिजीत कुमार मैती	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	पी.बी.-3 रु. 15600—39100+जी.पी. रु 6600/-
6	श्री समरेन्दु सिन्हा	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	पी.बी.-3 रु. 15600—39100+जी.पी. रु 6600/-

ए. बनर्जी
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं.वी.ई.सी.सी./ पदोन्नति (जुलाई)/2013/2477—राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र में वेतन बैंड 3 रु. 15600—39100 तथा ग्रेड वेतन रु. 6600/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (डी) के पद पर जुलाई 01, 2013, के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक स्थानापन्न रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं :

क.सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन
1	श्री सान्तनु साहू	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	पी.बी.-3 रु. 15600—39100+जी.पी. रु. 5400/-
2	श्री मनीरुल पुरकाईत	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	पी.बी.-3 रु. 15600—39100+जी.पी. रु. 5400/-
3	श्री बलराम कुमार नयन	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	पी.बी.-3 रु. 15600—39100+जी.पी. रु. 5400/-
4	श्री सनदीप घोष	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	पी.बी.-3 रु. 15600—39100+जी.पी. रु. 5400/-
5	श्री अरिन्दम कुमार सिकदर	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	पी.बी.-3 रु. 15600—39100+जी.पी. रु. 5400/-

ए. बनर्जी

प्रशासनिक अधिकारी-III

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली - 110003, दिनांक 3 सितम्बर 2014

सं ए- 32013/03/2013- स्थापना -2—राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों तथा मंत्रीमंडलीय नियुक्ति समिति की सहमती के आधार पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शायी गई दिनांक से PB-4 Rs. 37400—67000 + GP 10000/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त महानिदेशक के पद पर नियमित आधार पर अगले आदेश तक, नियुक्त करते हैं :-

1. श्री अरविंद सरदाना 19-08-2014 (पूर्वाह्न)
2. श्री ललित गुप्ता 19-08-2014 (पूर्वाह्न)

गोपाल सिंह

उपनिदेशक (प्रशासन)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर-208002, दिनांक 2 सितम्बर 2014

सं०: 560(3)/3513—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई प्रतिकूल कारण न दर्शाये जाने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कम्पनी विघटित कर दी जायेगी :-

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
1	2	3	4
1	एज कमोडिटीस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC051186	C11114345
2	बाइरान फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	U24232UP2007PTC034304	C11116514
3	एलोकान वीनियो टेलीकम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2011PTC045337	C12641775
4	गउमाता इन्फालैण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC055440	C13862594
5	ईकेएन लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC047037	C13992946
6	एकाडिया रिसर्च लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	U73100UP2009PTC036700	C14082564
7	लोक वैली इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2002PTC026998	C14324644
8	एनएसपिरेटल टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2009PTC038155	C14477566

1	2	3	4
9	डीसेंट एश्योरेंस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC036932	C14648372
10	वदूद मेडिकल डेविसेस प्राइवेट लिमिटेड	U33115UP2004PTC029372	C14756464
11	राइजिंग डवेलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2007PTC033444	C14872394
12	लारेस स्मार्ट सिटी रियलर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC049199	C15044837
13	वी जी वायरलेस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2012PTC051531	C15121510
14	हेडवे वेबसोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC046681	C15199789
15	दयालफोर्ट होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	U93030UP2006PTC032136	C15200363
16	यूनीकैम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	U24231UP1996PTC019779	C15232713
17	ईस्टर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24231UP2000PTC025421	C15466337
18	के वाई के फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U18204UP2013PTC054763	C15528557
19	ओम एन जे सोलर पावर एण्ड रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड	U40300UP2013PTC059250	C15769862
20	एनालाग इन्स्ट्रुमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U52334UP1986PTC008421	C15787849
21	ए एस एम इन्फ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2010PTC042913	C16130031
22	श्री क्रिश्नादया सोल्यूषन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2014PTC063068	C16180762
23	गिलस्टर हैल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	U24232UP2000PTC025747	C16643520
24	ए डी कान्सेप्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC046236	C16720963
25	स्वातीइन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2011PTC045632	C16722134
26	वीसिक्योर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2011PTC043658	C16722662
27	ग्राउन टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC045670	C16790396
28	श्री राम मेता कास्ट प्राइवेट लिमिटेड	U27310UP2011PTC045504	C16828048
29	प्रतिष्ठा लैंड डेवलपर्स एण्ड एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड	U70100UP2013PLC061602	C16840464
30	सिम्प्लेक्स ग्रिटस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC045214	C16881450

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चण्डीगढ़, दिनांक 29 अगस्त 2014

सं. आरओ सी/560(5)/एफ टी ई/2013—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विधित्त हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है:—

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
1	31425	ई-टैक लेसरग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2	38082	इनफ्रा स्काई बिल्टैक प्राइवेट लिमिटेड
3	32044	जेटीएल रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
4	31986	प्रज्ञा इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड
5	31310	यंग फर्स्ट सेंचुरी टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड
6	36306	रवींद्र फर्मा प्राइवेट लिमिटेड
7	32999	सोहराब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
8	38438	के आर ऐगो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
9	31505	होलीबेन हार्डट्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड
10	32126	देवी टीलू कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
11	26393	शिवम उत्पदन प्राइवेट लिमिटेड
12	34902	चौधरी स्पीनटैक्स लिमिटेड
13	33791	केयर टूडे मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
14	21451	ईम्पीरियल प्रिंटिंग प्रैस प्राइवेट लिमिटेड
15	23208	सोलीटेयर एंटरप्राइसिस प्राइवेट लिमिटेड
16	32511	स्टार एलायंस इमीग्रेशन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
17	35317	एपी संधू फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
18	34443	केनक्यूर क्लीनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
19	17679	दुर्गा आर्ट फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड
20	32599	गिल ब्रदर्स प्रोड्यूसर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
21	31794	बी एस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
22	34320	कम्पीटेंट एनर्जीस एंड सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड
23	32354	मैसून एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
24	12240	क्लासिक ईस्पात प्राइवेट लिमिटेड
25	13775	क्लासिक टयूब्स प्राइवेट लिमिटेड
26	32127	थिंक हिल्स एजुकेशन सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड
27	31354	हॉक्स मोबाईल सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
28	33724	रोहित इपकोरेक्स प्राइवेट लिमिटेड
29	32296	मैट्रोलेंड डिवैल्प्स प्राइवेट लिमिटेड
30	31422	इलवेक कन्सल्टिंग सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड
31	19387	एच एस हाईटेक मैडिकल डिवाइसिस प्राइवेट लिमिटेड

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
32	30937	पवन कम्प्यूटर टेक्नॉलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
33	32060	साई प्रभांती फाइनेंशियल एण्ड मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
34	31743	4 प्योर इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
35	27636	इम्पलीकेबल ड्रीम प्रोसपैक्टस एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड
36	32488	वी के कॉरपोरेट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
37	31785	स्काईलार्क इंजीनियरिंग एंड कन्सल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड
38	34279	जंडू टैक लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड
39	31209	डोहम नेटवर्क(सीएचडी) प्राइवेट लिमिटेड
40	31634	कैट्स आई एजुकेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड
41	36144	अकीरा मरकेंडाईस प्राइवेट लिमिटेड
42	32074	एक्सपलोर एच आर कन्सलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
43	31253	इंदरजीत होलीडे होम्स लिमिटेड
44	31252	इंदरजीत मल्टीपलैक्स लिमिटेड

विलास गजानन निपाने
सहा. रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
पंजाब एण्ड चण्डीगढ़

एलएलपी नियम, 2009 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चण्डीगढ़, दिनांक 29 अगस्त 2014

सं. आर.ओ.सी/एलएलपी/2013-एलएलपी नियम, 2009 के नियम 37 की उपधारा (1) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है की इस तारीख से तीस दिन के अवसान पर निम्नलिखित एलएलपी के नाम इनके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये गये तो रजिस्टर से काट दिये जाएंगे और निम्न एलएलपी विघटित कर दी जाएगी:-

क्र.सं.	एलएलपी नं.	एलएलपी का नाम
1	AAA-5634	पैनथारा टेक्नॉलॉजीस एलएलपी
2	AAA-4016	गर्ग हॉस्पिटल एलएलपी
3	AAA-1961	सरवारा टेक्नॉलाजीस एलएलपी

विलास गजानन निपाने
सहा. रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
पंजाब एण्ड चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले और निम्नलिखित कम्पनियों के संबंध में ।

जयपुर —302001, दिनांक 2 सितम्बर 2014

सं. करं/जेपीआर/560/(5)/1010—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न कम्पनियों के नाम, कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित कर दी गई हैं :—

क्र.सं.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
01	025522	वर्टिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
02	023855	संगीता अपार्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
03	036779	एमके विल सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
04	036055	श्री हीरा मीनकेम प्राईवेट लिमिटेड
05	026519	त्रिनिटी ट्यूटोरियल्स प्राईवेट लिमिटेड
06	019847	विनोद मार्क—पैक प्राईवेट लिमिटेड
07	024800	इन्सपायर्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
08	021522	मेक्सवेल आई.टी. सोफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
09	019267	मंगलम टाउनशिप लिमिटेड
10	044851	मनोज कॉलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
11	035954	गुरुकृपा इसोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
12	034363	सवार मार्बल माइन्स प्राईवेट लिमिटेड
13	006270	आशुतोष सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
14	033892	सिद्धयतन डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
15	021741	श्री माया कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
16	034055	जैन लंग्स एण्ड जनरल हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड
17	035939	अरका ट्रेडमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
18	036804	सीके बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड
19	014733	पी.एम. हेगर्स प्राईवेट लिमिटेड
20	021491	लग्न—भूमि लैण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
21	035527	अतुल्य प्रिफेब प्राईवेट लिमिटेड
22	026017	दीया फार्मस एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
23	038025	हिलिंगहैण्डस कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
24	027186	सिस्टेक एज्यूटेनिंग प्राईवेट लिमिटेड
25	023964	मरिक इंजीनिरिंग प्राईवेट लिमिटेड
26	039646	सुपरटेक ग्रेनाईट प्राईवेट लिमिटेड
27	033278	अनूप शान्ति ज्वेल्स प्राईवेट लिमिटेड
28	036349	प्रेरणा ज्वैलर्स प्राईवेट लिमिटेड
29	020416	वैशाली बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
30	041596	बी.एस. खण्डेलवाल सिक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
31	031210	श्रीनाथकृपा प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
32	026463	पारस मानक प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
33	031140	श्रीनाथकृपा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
34	022389	चैकरड बीड्स प्राईवेट लिमिटेड
35	035346	सुरभी पंचगव्या उत्पाद प्राईवेट लिमिटेड
36	018856	जैनटेड कोलोनाइजर प्राईवेट लिमिटेड
37	043004	रहीम इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
38	041853	रॉयलजेम्स कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
39	027536	शिव पोली मेडिकल प्राईवेट लिमिटेड
40	025367	केरमा कोल एडेसिक्स प्राईवेट लिमिटेड

इमरान ए. सिद्दीकी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
एवं सहायक शासकीय समापक
राजस्थान

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. कॉन्स्टेंटिन सत्या हॉस्पिटैलिटीस् प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक: 02 सितम्बर 2014

सं. 6332—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5)के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. कॉन्स्टेंटिन सत्या हॉस्पिटैलिटीस् प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

सुधीरलीलाधर फाये
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के बारे में

कोच्चि, 682 021.दिनांक 26 अगस्त 2014

सं नोटिस 560 (5)/एफटिडि-2014—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं:	पंजीकरण नंबर	कंपनी का नाम
1	U70101KL2008PTC022118	केनिषा प्रोपरटी प्रैवट लिमिटेड
2	U24230KL2012PTC031851	त्रिशुर सिटि ड्रग्स प्रैवट लिमिटेड
3	U65993KL1987PLC004719	चानक्या लिसिंग इनवेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
4	U01132KL2012PLC030487	कोनकोर्ड प्लानटेशनज़ लिमिटेड
5	U01100KL2012PLC030573	रिसनन्स प्लानटेशनज़ लिमिटेड
6	U15205KL2005PTC018984	मेरमास फ़ोज़न फण फुडज़ प्रैवट लिमिटेड
7	U17226KL2005PTC018070	फलो ओवर फरनिशिंग्स एण्ड मार्केटिंग प्रैवट लिमिटेड
8	U15205KL2005PTC017798	मेरीलान्ड फ़ोज़न क्रीमस प्रैवट लिमिटेड
9	U52311KL2006PTC019917	क्वाडरेटस ट्रेडिंग कंपनी प्रैवट लिमिटेड
10	U72200KL2009PTC023911	इलक्ट्रोफोस सेक्यूरिटी सोल्यूशन्ज़ प्रैवट लिमिटेड
11	U21012KL2010PTC026337	एस2एफ प्रिन्टिंग सोल्यूशन्ज़ प्रैवट लिमिटेड

क्रम सः	पंजीकरण नंबर	कंपनी का नाम
13	U70100KL2013PTC034127	पनामन्ना प्रोपरटी प्रैवट लिमिटेड
14	U45200KL2009PTC024883	परपिलक्रस्ट बिलडर्ज एण्ड डिवलपर्ज प्रैवट लिमिटेड
15	U72200KL2004PTC017711	ब्रिजगे टेकनोलजी सोल्यूशन्ज प्रैवट लिमिटेड
16	U74910KL2005PTC018197	स्टरलिकस एस्टाब्लीषमेन्ट्स प्रैवट लिमिटेड
17	U05004KL2007PTC020243	मारबियो अकुआ टेक प्रैवट लिमिटेड
18	U72900KL2010PTC026296	सरज टेकनोलजी ट्रेनिंग सोल्यूशन्ज प्रैवट लिमिटेड
19	U45202KL2006PTC020079	आर के बिलडर्ज इण्डिया प्रैवट लिमिटेड
20	U70200KL2008PTC022410	सान डिवलपर्ज प्रैवट लिमिटेड
21	U72200KL2008PTC023115	डिमारके ऐटि सोल्यूशन्ज प्रैवट लिमिटेड
22	U65992KL2001PTC014837	पोरनमी कुरीज प्रैवट लिमिटेड
23	U51229KL2012PTC032402	एकोलजिस एक्सीम प्रैवट लिमिटेड
24	U63040KL2011PTC028437	फिसकल वेकेशनज इण्डिया प्रैवट लिमिटेड
25	U65992KL2012PTC032259	श्री यदुक्रष्णा चिट्स प्रैवट लिमिटेड
26	U72200KL2001PTC014649	रिवर व्यू कंप्यूटर टेकनोलजिस प्रैवट लिमिटेड
27	U63040KL2003PTC016630	फ्रान्स सिएमएच इन्डी पार्टनर्ज प्रैवट लिमिटेड
28	U92400KL2012PTC032221	सिनेमातेक एन्टरटेयिनमेन्ट्स प्रैवट लिमिटेड
29	U67200KL2007PTC020936	डाज़लिंग सेक्यूरिटिस एण्ड इनशुरन्ज सर्वीसस प्रैवट लिमिटेड
30	U45200KL2010PTC025682	कक्कोडी बिलडर्ज & डिवलपर्ज प्रैवट लिमिटेड
31	U70102KL2008PTC022236	मिनारेट प्रोजेक्ट्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रैवट लिमिटेड
32	U63040KL2006PTC019945	फोकज़ होलिडेज़ प्रैवट लिमिटेड
33	U55101KL2004PTC016844	वैलड ओरकिड होसपिटालिटि वेनचर्स प्रैवट लिमिटेड
34	U52100KL2010PTC025543	जाम जूम ट्रेडर्ज प्रैवट लिमिटेड
35	U74200KL2010PTC025943	मोनडो एज़िनियर्ज प्रैवट लिमिटेड
36	U65992KL1999PTC013174	विजि एस विजया कुरीज एण्ड चिट्स प्रैवट लिमिटेड
37	U74920KL2011PTC028795	सेज इन्टलिजेन्स & सेक्यूरिटी सर्वीसस प्रैवट लिमिटेड
38	U92111KL2005PTC018826	होरनबिल इमेजस प्रैवट लिमिटेड
39	U45100KL2009PTC024564	कुन्नेल सेगूरो पैलिंग & फौनडेश्यन्ज प्रैवट लिमिटेड
40	U72200KL2009PTC025170	एनस्ट्रुसेन सैनटिफिक इन्स्टुमेन्टज़ प्रैवट लिमिटेड
41	U72200KL2013PTC033850	4पिमोबि टेकनोलजिस प्रैवट लिमिटेड

के जि जोसफ जाक्सन
कंपनी पंजीयक, केरल

कम्पनी अधिनियम, १९५६ और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में,
बैंगलूर, दिनांक (७) अगस्त २०१४

सं. ल.सी/५६०(५) अफटीइ—कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा ५६० की उपधारा (५) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गयी हैं:-

SI. No	CIN	कंपनी नाम
1	U15539KA2009PTC048886	सोव्के एगो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

कीर्ति तेज. एन्
सहायक रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, १९५६ और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में,
बैंगलूर, दिनांक (१) सेप्टेम्बर २०१४

सं. ल.सी/५६०(५) अफटीइ—कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा ५६० की उपधारा (५) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गयी हैं:-

SI. No	CIN	कंपनी नाम
1	U72200KA2008PTC047484	फिटेस्ला अडवांस्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

कीर्ति तेज. एन्
सहायक रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, १९५६ और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में,
बैंगलूर, दिनांक (२) सेप्टेम्बर २०१४

सं. ल.सी/५६०(५) अफटीइ—कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा ५६० की उपधारा (५) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गयी हैं:-

SI. No	CIN	कंपनी नाम
1	U21098KA2010PTC054056	औरो टेप्स प्राइवेट लिमिटेड
2	U51909KA1990PTC010873	इनोवेटिव मेनेजमेंट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3	U74140KA2007PTC042142	पट्ट एंड हॉफ मेनेजमेंट एंड हेचआर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

कीर्ति तेज. एन्
सहायक रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज
कर्नाटक

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 1st September 2014

No. DPPERS.I/2014/85/3/50/2014-PERS.I.—Shri D.V. Tripathi, relinquished the charge of Deputy Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 30.6.2014 (AN) on attaining the age of superannuation.

DEEPIKA SURI
Deputy Director (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

Hyderabad-500052, the 25th August 2014

No.15011/13/2014-Estt.—In pursuance of the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare (CHS-I Section), New Delhi Memorandum No.A.12025/461/2014-CHS-I dated 04th August, 2014, Dr (Ms) V. Vandana, has assumed the charge as Medical Officer in the SVP National Police Academy in the forenoon of 14th August, 2014 in the Pay Band-3 Rs. 15,600 – 39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- + Non Practicing Allowance as admissible from time to time until further orders, on terms and conditions as laid down in the aforesaid Memorandum dated 04th August 2014.

ARUNA BAHUGUNA
Director

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-03, the 11th August 2014

No. O.II-3674/2014-Pers-DA-I—The Govt. of India have appointed Shri Raj Kumar, IPS (UP : 95) as Deputy Inspector General (DIG) in CRPF on deputation basis in the Pay Band-4 (Rs. 37,400-67,000/-) with Grade Pay of Rs. 8,900/- for a period of 05 years from the date of taking over the charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Deputy Inspector General, CRPF on the forenoon of 11/08/2014.

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

The 13th August 2014

No.D.I.7/2013- Pers-DA-8—Consequent on their selection for appointment to the post of Team Commander (GD) in NSG on deputation basis for a period of five years as per existing terms and conditions of deputation vide NSG HQr letter No. 20016/01/2014-Estt-HQr NSG/1997 dated 21/05/2014, services in respect of following Asstt. Comdts are placed at the disposal of NSG from the date shown against each:-

Sl. No.	IRLA No.	Rank & Name (S/Shri)	Unit	Date of relief
01.	8382	Abhijit Singh Rathore, AC	133 Bn CRPF	23/06/2014(AN)
02.	8416	Akhilesh Kumar, AC	85 Bn, CRPF	27/06/2014(AN)
03.	7953	Shailender Kumar, AC	204 CoBRA Bn, CRPF	28/07/2014(AN)

M. C. PANWAR
DIG(Pers)

The 27th August 2014

No. O.II-3982/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Rupesh Kumar Sahu, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the pay band of Rs. 15,600-39,100 plus Grade pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 23-08-2014 (FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. PANWAR
DIG(Pers)

No. O.II-3981/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Chandan Kumar, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the pay band of Rs. 15,600-39,100 plus Grade pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 13-08-2014(FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. PANWAR
DIG(Pers)

The 2nd September 2014

No. O.II-3983/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Dhok Amit Ajay, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the pay band of Rs. 15,600-39,100 plus Grade pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 27-08-2014(FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. PANWAR
DIG(Pers)

No. O.II-3984/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Ashish Shandilya, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the pay band of Rs. 15,600—39,100 plus Grade pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 28-08-2014(FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. PANWAR
DIG(Pers)

No. O.II-3676/2014-Pers-DA-I—The Govt. of India have appointed Shri Rajesh Pratap Singh, IPS (UP : 85) as Inspector General (IG) in CRPF on deputation basis in the Pay Band-4 (Rs. 37,400-67,000/-) with Grade Pay of Rs. 10,000/- for a period upto 30/06/2019 i.e. date of his superannuation from the date of taking over the charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Inspector General, CRPF on the forenoon of 02/09/2014.

M. C. PANWAR
DIG(Pers)

The 3rd September 2014

No. O.II-5209/2014-Pers-DA-3—Consequent on acceptance of his voluntary retirement from Govt service by the competent authority, Shri Rakesh Kumar Srivastava, 2-IC (IRLA : 5209) of O/o DIG Range Greater Noida, CRPF, relinquished the charge of his post on the forenoon of 01st Sep. 2014. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from the same date i.e. 01/09/2014 (FN).

M. C. PANWAR
DIG(Pers)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT), RAJASTHAN

Jaipur, the 2nd September 2014

No. Admn.-II/Gazette Notification/R-12063/122 /2014/D 371—The following Group 'B' Gazetted Officers retired on superannuation from Government Service from the date shown against their names:

S/Shri

1. Govind Prasad Goyal Retired on superannuation wef. 31.08.2014 (AN)
Senior Audit Officer
2. Dinesh Kumar Gupta Retired on superannuation wef. 31.08.2014 (AN)
Senior Audit Officer

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT), ODISHA

Bhubaneswar, the 3rd September 2014

No. Admn(G&SSA)/17-2(AO)/Vol.VIII/ 1422—In pursuance of OOC No. 638 dated 28.08.2014 communicated vide Memo No. Admn (G&SSA)-17-2/(AO)/Vol.VIII /1399 dated 28.08.2014 the following Asstt. Audit Officers on promotion have assumed the charge as Audit Officer (Civil) in Pay Band – 2 (Rs. 9300 – Rs. 34800/-) with corresponding Grade Pay of Rs. 5400/- with effect from the date as indicated against them.

Sl. No.	Name of the Officers (S/Shri)	Date of taking over charge as Audit Officer
01.	Bijay Kumar Praharaj	28.08.2014 AN
02.	Prakash Chandra Sabat	28.08.2014 AN
03.	Chandra Kishore Agrawala	01.09.2014 FN
04.	Bandhu Lakra	01.09.2014 FN

BHAGABAN NAYAK
Sr. Audit Officer/ Admn.

MINISTRY OF MINES
(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-700016, the 3rd September 2014

No. 5551/SP/A-19011(1-SKD)/2012/19A—The resignation tendered by Shri Santosh Kumar Das on personal ground from the post of Geologist in Geological Survey of India has been accepted by the Director General, Geological Survey of India with effect from the afternoon of 11.07.2013.

H. M. MISHRA
Dy. Director (P & A)
for Director General

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & CO-OPERATION)
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 27th August 2014

No. A-19024/6/2013-A.I—Smt. S. Seethalakshmi, Senior Chemist, Directorate of Marketing & Inspection, Regional Agmark Laboratory, Chennai has voluntarily retired from Government service with effect from 20th August, 2014.

M. L. SIKKA
Under Secretary

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai – 85, the 12th August 2014

No. 93/Notification./I&II/OPA/108412—The Cadre Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof :-

Sr. No.	Name of the officer	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Shri N.G. Bijur	AO-II	31/07/2014 (AN)	Superannuation
2	Shri V.R. Badade	SO	31/07/2014(AN)	Superannuation
3	Smt. Sobhana K. Nair	Sr.PS	31/07/2014(AN)	Superannuation

Sd/- ILLEGIBLE
Controller

No. 93/Notification./I&II/OPA/108412—The Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof :-

Sr. No.	Name of the officer	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Shri Ravindra Saini	SO/D	09/07/2014(AN)	Technical Resignation
2	Dr. (Smt.) Geetha Rajappan	SO/F	31/07/2014(AN)	Superannuation
3	Smt. Geeta Waman Nabar	SO/D	31/07/2014(AN)	Superannuation
4	Dr. Vinod Kumar	OS	31/07/2014(AN)	Retirement after four years Extension of Service
5	Shri Mudabbir Ehtisham Zuberi	SO/F	31/07/2014(AN)	Superannuation
6	Shri Manjit Singh	DS	31/07/2014(AN)	Retirement after four years Extension of Service
7	Shri Balkrishna Pandurang Patil	SO/E	31/07/2014(AN)	Superannuation
8	Shri S.N.Pillai	SO/F	31/07/2014(AN)	Superannuation
9	Shri Hasanji Abdulhusain Gangardiwala	SO/E	31/07/2014(AN)	Superannuation

Sd/- ILLEGIBLE
Controller

Mumbai- 85, the 2nd September 2014

No. PD/6(1)/2014-R-III/2014/10322—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Dinesh Shashikant Nalawade, Assistant Security Officer (A), DCSEM, Mumbai to officiate as Security Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs. 4800/- in this Research Centre with effect from the forenoon of 18.08.2014 on regular basis until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE)

Kolkata-700064, the 1st September 2014

No.VECC/Prom.(July)/2012/2468—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officer (D) of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer (E) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 7600/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from the forenoon of July 1, 2012, until further orders :-

Sl.No.	Name	Present post	Pay Band plus Grade Pay
1.	Shri Jhilam Sadhukhan	Scientific Officer (D)	PB 3 Rs.15600 -39100 + GP Rs. 6600/-

A. BANERJEE
Administrative Officer-III

The 2nd September 2014

No.VECC/Prom.(July)/2013/2476—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer (E) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 7600/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from the forenoon of July 1, 2013, until further orders :-

Sl.No.	Name	Present post	Pay Band plus Grade Pay
1.	Shri Saurabh Srivastava	Scientific Officer (D)	PB 3 Rs.15600 -39100 + GP Rs. 6600/-
2.	Shri Shree Subhashish Basak	Scientific Officer (D)	PB 3 Rs.15600 -39100 + GP Rs. 6600/-
3.	Shri Suvadeep Roy	Scientific Officer (D)	PB 3 Rs.15600 -39100 + GP Rs. 6600/-
4.	Shri Prithwish Tribedy	Scientific Officer (D)	PB 3 Rs.15600 -39100 + GP Rs. 6600/-
5.	Shri Trijit Kumar Maiti	Scientific Officer (D)	PB 3 Rs.15600 -39100 + GP Rs. 6600/-
6.	Shri Samarendu Sinha	Scientific Officer (D)	PB 3 Rs.15600 -39100 + GP Rs. 6600/-

A. BANERJEE
Administrative Officer-III

No.VECC/Prom.(July)/2013/2477—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer (D) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 6600/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from the forenoon of July 1, 2013, until further orders :-

Sl.No.	Name	Present post	Pay Band plus Grade Pay
1.	Shri Shantonu Sahoo	Scientific Officer (C)	PB 3 Rs.15600 -39100 + GP Rs. 5400/-
2.	Shri Monirul Purkait	Scientific Officer (C)	PB 3 Rs.15600 -39100 + GP Rs. 5400/-
3.	Shri Balaram Kumar Nayan	Scientific Officer (C)	PB 3 Rs.15600 -39100 + GP Rs. 5400/-
4.	Shri Sundeep Ghosh	Scientific Officer (C)	PB 3 Rs.15600 -39100 + GP Rs. 5400/-
5.	Shri Arindam Kumar Sikdar	Scientific Officer (C)	PB 3 Rs.15600 -39100 + GP Rs. 5400/-

A. BANERJEE
Administrative Officer-III

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 3rd September 2014

No. A-32013/03/2013-E.II.—On the basis of the recommendations of the Union Public Service Commission and with the approval of the Appointment Committee of the Cabinet, the President, hereby appoints the following officers as

Joint Director General, on regular basis, in the Office of the Director General of Civil Aviation, in PB-4 of Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs. 10000/- with effect from the date mentioned against their names and until further orders.

- (1) Shri Arvind Sardana 19.08.2014 (FN)
 (2) Shri Lalit Gupta 19.08.2014 (FN)

GOPAL SINGH
 Deputy Director of Administration

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

O/o. REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of following companies

Kanpur-208001, the 2nd September 2014

No.LC/560(3)/3513—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved :—

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
1	2	3	4
1	EDGE COMMODITIES PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC051186	C11114345
2	BYRON PHARMA PRIVATE LIMITED	U24232UP2007PTC034304	C11116514
3	ALOCON VENIO TELECOMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U74900UP2011PTC045337	C12641775
4	GAUMATA INFRALAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC055440	C13862594
5	EKN LEARNING PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC047037	C13992946
6	ACADIA RESEARCH LABORATORIES PRIVATE LIMITED	U73100UP2009PTC036700	C14082564
7	LOK VALLEY INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72200UP2002PTC026998	C14324644
8	NSPIRETEL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72300UP2009PTC038155	C14477566
9	DECENT ASSURANCE CONSULTANT PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC036932	C14648372
10	WADOOD MEDICARE DEVICES PRIVATE LIMITED	U33115UP2004PTC029372	C14756464
11	RISING DWELLINGS PRIVATE LIMITED	U45400UP2007PTC033444	C14872394
12	LARES SMART CITY REALTORS PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC049199	C15044837
13	B G WIRELESS PRIVATE LIMITED	U72300UP2012PTC051531	C15121510
14	HEADWAY WEBSOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300UP2011PTC046681	C15199789
15	DAYALFORT HOTELS PRIVATE LIMITED	U93030UP2006PTC032136	C15200363
16	UNICHEM PHARMA PRIVATE LIMITED	U24231UP1996PTC019779	C15232713
17	EASTER PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U24231UP2000PTC025421	C15466337
18	KYK FASHIONS PRIVATE LIMITED	U18204UP2013PTC054763	C15528557
19	OM AN J SOLAR POWER AND REALITY PRIVATE LIMITED	U40300UP2013PTC059250	C15769862
20	ANALOG INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED	U52334UP1986PTC008421	C15787849
21	ASM INFRACITY PRIVATE LIMITED	U45400UP2010PTC042913	C16130031
22	SHRI KRISHNADYA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74900UP2014PTC063068	C16180762
23	GLISTER HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U24232UP2000PTC025747	C16643520

1	2	3	4
24	A D CONCEPT MARKETING PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC046236	C16720963
25	SWATI INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2011PTC045632	C16722134
26	VSECURE INFRA TECH PRIVATE LIMITED	U70102UP2011PTC043658	C16722662
27	GROWAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72300UP2011PTC045670	C16790396
28	SHREE RAM META CAST PRIVATE LIMITED	U27310UP2011PTC045504	C16828048
29	PRATIGYAN LAND DEVELOPERS AND AGRICULTURE LIMITED	U70100UP2013PLC061602	C16840464
30	SIMPLEX GRITS PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC045214	C16881450

S.P.KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Chandigarh, the 29th August 2014

No. ROC/560(5) FTE/2013. - Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved:-

S.No.	Company No	Name of the Company
1	2	3
1	31425	E-Tech Lasergraphics Private Limited
2.	38082	Infra Sky Builtech Private Limited
3.	32044	JTL Real Estate Private Limited
4.	31986	Prajha Internet Private Limited
5.	31310	Young First Century Town Planners Private Limited
6.	36306	Ravindu Pharma Private Limited
7.	32999	Sohrab Hotels Private Limited
8.	38438	K R Agro Foods Private Limited
9.	31505	Holybein Hydro Power Private Limited
10.	32126	Devi Tilo Construction Private Limited
11.	26393	Shivam Utpadan Private Limited
12.	34902	Chaudry Spintex Limited
13.	33791	Care Today Media Private Limited
14.	21451	Imperial Printing Press Private Limited
15.	23208	Solitaire Enterprises Private Limited
16.	32511	Star Alliance Immigration Solutions Private Limited
17.	35317	AP Sandhu Foods Private Limited
18.	34443	Cancure Clinics Private Limited
19.	17679	Durga Art Fashions Private Limited
20.	32599	Gill Brothers Producer Co. Private Limited
21.	31794	B S Capital Services Private Limited
22.	34320	Competent Energies & Services Private Limited

1	2	3
23.	32354	Masoon Exports Private Limited
24.	12240	Classic Ispaat Private Limited
25.	13775	Classic Tubes Private Limited
26.	32127	Think Hills Education Services Private Limited
27.	31354	Hawks Mobile Solutions Private Limited
28.	33724	Rohit Imporex Private Limited
29.	32296	Metro Land Developers Private Limited
30.	31422	Elvek Consulting Services Private Limited
31.	19387	H S Hitech Medical Devices Private Limited
32.	30937	Pawan Computer Technologies Private Limited
33.	32060	Saiprashanti Financial & Management Services Private Limited
34.	31743	4Sure Estates Private Limited
35.	27636	Impeccable Dream Prospects Educational Private Limited
36.	32488	V.K.Corporate Services Private Limited
37.	31785	Skylark Engineering & Construction Private Limited
38.	34279	Jandu Tech Learning Private Limited
39.	31209	Doohm Network (CHD) Private Limited
40.	31634	Cat's Eye Educationals Private Limited
41.	36144	Akira Merchandise Private Limited
42.	32074	Xplore HR Consultants Private Limited
43.	31253	Inderjit Holiday Homes Limited
44.	31252	Inderjit Multiplex Limited

VILAS GAJANAN NIPANE
Asstt. Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

In the matter of LLP Rules 2009 of the following Companies

Chandigarh, the 29th August 2014

No. ROC/LLP/2013. - Notice is hereby given pursuant to Rule 37(1) of the LLP Rules, 2009 that the expiration of thirty days from the date hereof the name of the following LLP unless is shown to contrary, will be struck off from the Register and the said LLP will be dissolved:-

S.No.	Company No	Name of the Company
1.	AAA-5634	M/s. Penthara Technologies LLP
2.	AAA-4016	M/s. Garg Hospital LLP
3.	AAA-1961	M/s. Sarwara Technologies LLP

VILAS GAJANAN NIPANE
Asstt. Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

In the matter of companies act, 1956 and of the following companies

Jaipur-302001, the 2nd September 2014

No. ROC/JPR/560(5)/1010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved.

S. No.	Company No.	Company Name
1	2	3
01	025522	VARTIKA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
02	023855	SANGEETA APARTMENTS PRIVATE LIMITED
03	036779	MK WILL SOFTWARE PRIVATE LIMITED
04	036055	SHREE HIRA MINECHEM PRIVATE LIMITED
05	026519	TRINITY TUTORIALS PRIVATE LIMITED
06	019847	VINOD MARK-PACK PRIVATE LIMITED
07	024800	INSPIRED BUILDERS PRIVATE LIMITED
08	021522	MAXWELL I.T. SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
09	019267	MANGLAM TOWNSHIP LIMITED
10	044851	MANOJ COLONIZERS PRIVATE LIMITED
11	035954	GURUKRIPA ESOLUTION PRIVATE LIMITED
12	034363	SAWAR MARBLE MINES PRIVATE LIMITED
13	006270	ASHUTOSH CEMENTS PVT.LTD
14	033892	SIDHAYATAN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
15	021741	SHREE MAYA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
16	034055	JAIN LUNGS AND GENERAL HOSPITAL PRIVATE LIMITED
17	035939	ARKA TRADEMART PRIVATE LIMITED
18	036804	CK BUILDWELL PRIVATE LIMITED
19	014733	P.M.HANGERS PRIVATE LIMITED
20	021491	LAGN-BHOOMI LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
21	035527	ATULYA PREFAB PRIVATE LIMITED
22	026017	DIYA FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
23	038025	HEALINGHANDS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
24	027186	SYSTECH EDUTRAINING PRIVATE LIMITED
25	023964	MRIC ENGINEERING PRIVATE LIMITED
26	039646	SUPERTECK GRANITE PRIVATE LIMITED
27	033278	ANUP SHANTI JEWELS PRIVATE LIMITED
28	036349	PRERNA JEWELLERS PRIVATE LIMITED
29	020416	VAISHALI BUILDERS PRIVATE LIMITED
30	041596	B.S. KHANDELWAL SECURITIES PRIVATE LIMITED
31	031210	SHRINATHKRIPA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
32	026463	PARAS MANAK PROPERTIES PRIVATE LIMITED
33	031140	SHRINATHKRIPA BUILDERS PRIVATE LIMITED
34	022389	CHEQUERED BEADS PRIVATE LIMITED
35	035346	SURBHI PANCHGAVYA UTPAD PRIVATE LIMITED

1	2	3
36	018856	JAINTRADE COLONIZER PRIVATE LIMITED
37	043004	RHYME INFOTECH PRIVATE LIMITED
38	041873	ROYALJEMS CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
39	027536	SHIV POLY MEDICAL PRIVATE LIMITED
40	025367	KAERMA KOLL ADHESIVES PRIVATE LIMITED

IMRAN A. SIDDIQUI
Asstt. Registrar of Companies
-cum- Asstt. Official Liquidator
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s KONSTANTIN SATYA HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED

Panaji-403001, the 2nd September 2014

No. 6332—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of KONSTANTIN SATYA HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SUDHIR LILADHAR PHAYE
Assistant Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act 1956 and of the following companies

Kochi-682021, the 26th August 2014

No. Notice u/s. 560(5)/FTE-2014—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved:-

Sl.No.	Co.Reg.No.	Company Name
1	2	3
1	U70101KL2008PTC022118	KENISHA PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2	U24230KL2012PTC031851	THRISSUR CITY DRUGS PRIVATE LIMITED
3	U65993KL1987PLC004719	CHANAKYA LEASING INVESTMENTS LTD
4	U01132KL2012PLC030487	CONCORD PLANTATIONS LIMITED
5	U01100KL2012PLC030573	RESONANCE PLANTATIONS LIMITED
6	U15205KL2005PTC018984	MERMAS FROZEN FUN FOODS PRIVATE LIMITED
7	U17226KL2005PTC018070	FLO VER FURNISHINGS AND MARKETING PRIVATE LIMITED
8	U15205KL2005PTC017798	MERRYLAND FROZEN CREAMS PRIVATE LIMITED
9	U52311KL2006PTC019917	QUADRATES TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
10	U72200KL2009PTC023911	ELECTROFOS SECURITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
11	U21012KL2010PTC026337	S2F PRINTING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
12	U74910KL2011PTC028235	VIPASSANA LEARNING AND HUMAN RESOURCE SERVICES PRIVATE LIMITED
13	U70100KL2013PTC034127	PANAMANNA PROPERTY PRIVATE LIMITED
14	U45200KL2009PTC024883	PURPLECREST BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
15	U72200KL2004PTC017711	BRIZGO TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

1	2	3
16	U74910KL2005PTC018197	STERLING ESTABLISHMENTS PRIVATE LIMITED
17	U05004KL2007PTC020243	MARBIO AQUA TECH PRIVATE LIMITED
18	U72900KL2010PTC026296	SARG TECHNOLOGY TRAINING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
19	U45202KL2006PTC020079	R K BUILDERS INDIA PRIVATE LIMITED
20	U70200KL2008PTC022410	SAN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
21	U72200KL2008PTC023115	DEMARCHE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
22	U65992KL2001PTC014837	POURNAMI KURIES PRIVATE LIMITED
23	U51229KL2012PTC032402	ECOLOGICS EXIM PRIVATE LIMITED
24	U63040KL2011PTC028437	PHISAL VACATIONS INDIA PRIVATE LIMITED
25	U65992KL2012PTC032259	SREE YADHUKRISHNA CHITS PRIVATE LIMITED
26	U72200KL2001PTC014649	RIVER VIEW COMPUTER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
27	U63040KL2003PTC016630	FRANCE CMH INDE PARTNERS PRIVATE LIMITED
28	U92400KL2012PTC032221	CINEMATHEQUE ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
29	U67200KL2007PTC020936	DAZZLING SECURITIES AND INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
30	U45200KL2010PTC025682	KAKKODI BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
31	U70102KL2008PTC022236	MINARET PROJECTS AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
32	U63040KL2006PTC019945	FOCUZ HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
33	U55101KL2004PTC016844	WILD ORCHID HOSPITALITY VENTURES PRIVATE LIMITED
34	U52100KL2010PTC025543	JAM JOOM TRADERS PRIVATE LIMITED
35	U74200KL2010PTC025943	MONDO ENGINEERS PRIVATE LIMITED
36	U65992KL1999PTC013174	VG S VIJAYA KURIES AND CHITS PRIVATE LIMITED
37	U74920KL2011PTC028795	SAGE INTELLIGENCE & SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
38	U92111KL2005PTC018826	HORNBIL IMAGES PRIVATE LIMITED
39	U45100KL2009PTC024564	KUNNEL SEGURO PILING & FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
40	U72200KL2009PTC025170	NSTRON SCIENTIFIC INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED
41	U72200KL2013PTC033850	4PMOBI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

K.G. JOSEPH JACKSON
Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the companies Act, 1956 and of the following company

Bangalore, the 7th August 2014

No. ROC/560/(5)-FTE—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the companies Act, 1956, that the name of the undermentioned company has been struck off from the register and the said company stand dissolved:—

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1	U15539KA2009PTC048886	SOKKE AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED

KEERTHI THEJ N
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the companies Act, 1956 and of the following company

Bangalore, the 1st September 2014

No. ROC/560/(5)-FTE—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the companies Act, 1956, that the name of the undermentioned company has been struck off from the register and the said company stand dissolved:—

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1	U72200KA2008PTC047484	PHITESLA ADVANCED TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

KEERTHI THEJ N
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the companies Act, 1956 and of the following company

Bangalore, the 2nd September 2014

No. ROC/560/(5)-FTE—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the companies Act, 1956, that the name of the undermentioned companies from Sl. No. 1 to 3 have been struck off from the register and the said companies stand dissolved:—

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1	U21098KA2010PTC054056	AURO TAPES PRIVATE LIMITED
2	U51909KA1990PTC010873	INNOVATIVE MANAGEMENT CONSULTING PRIVATE LIMITED
3	U74140KA2007PTC042142	PATT AND HOFF MANAGEMENT AND HR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

KEERTHI THEJ N
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in